

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में जूनियर रेसीडेन्ट (JR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

जूनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु.45,000/- प्रतिमाह)

| DEPARTMENT  | TOTAL POST | UR | ST | SC | OBC |
|-------------|------------|----|----|----|-----|
| DERMATOLOGY | 03         | 02 | 0  | 01 | 0   |

नोट:- इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति, 01 फोटो एवं निर्धारित शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न करें। आवेदक स्कुटनी हेतु दिनांक 05.11.2020 को प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक कार्यालय के बायोकेमेस्ट्री विभाग के सेमिनार कम लायब्रेरी रूम में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें।

साक्षात्कार दिनांक 05.11.2020 को दोप. 02:30 बजे नियत किया जाता है आवेदक को आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

*ok*

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें।

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
4. जूनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
6. अवधि : जूनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। इनकी प्रथम: 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
7. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको, अनुभव, अतिरिक्त योग्यता एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
8. आवेदन शुल्क : जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 600/- (छः सौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- (तीन सौ)। राशि का बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम देय होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन नं. लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी।
9. शैक्षणिक योग्यता:-  
जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले तीन वर्षों के अन्दर एम.बी.बी.एस.परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। जूनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
10. यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
11. आयु सीमा:- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्तें :

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट्स से संबंधित, सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य है।
8. जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान/सी.एम.ओ. ड्यूटी पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
9. यदि किसी अथर्थी के दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास रहेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

Note :- Previously filled forms for SR/JR will not be considered. Only fresh applications will be considered.

क्रमांक / / SR/JR / 2020  
प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर म.प्र. शासन के आदेश क्रं. एफ-4-7/2010/1/55 दि 25.08.10 एवं एफ-1-03/2017/55-2 भोपाल दिनांक 04.04.2017 एवं 1274-79/स्था/राज/2019 भोपाल दिनांक 31.05.2019 के परिपालन में।
2. अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर एवं रीवा की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा करने का कष्ट करे।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
4. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/छात्रावास/लायब्रेरी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गौ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

इन्दौर, दि.

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गौ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

JR

## UNDERTAKING

I Dr. \_\_\_\_\_ hereby declare that I have cleared my M.B.B.S. examination in following attempts: First Prof \_\_\_\_\_ Second Prof \_\_\_\_\_ Final Prof (Part-I) \_\_\_\_\_ Final Prof (Part II) \_\_\_\_\_ & MD / MS examination in \_\_\_\_\_ attempt.

### In case the candidate is not registered with Medical Council (M.P. / MCI)

I will submit my Medical Council Registration it at the time of joining.

All the information given by me is true & correct and if any information is found to be incorrect or if I could not submit my registration certificate, my selection for the post of \_\_\_\_\_ Resident can be cancelled.

Name & Signature of the Candidate

अभिज्ञाता एवं मुख्य आवेदक के अधिकारी  
 गो. र. म. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
 रावशारी सराय इन्दौर

जूनियर रेसीडेंट के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदित पद

विभाग

अभिप्रमाणित

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. बैंक ड्राफ्ट - क  
 दिनांक ..... राशि  
 बैंक का नाम - .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पुरुष / महिला .....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) .....
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) .....
6. शहर का नाम ..... फोन नं .....  
 मोबाइल नं .....  
 स्थाई पता .....
7. शहर का नाम ..... फोन नं .....  
 मोबाइल नं .....  
 जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अकसूची सलग्न करें) .....
8. दिनांक 01/04/2012 को आवेदक की आयु ..... दिन ..... माह ..... वर्ष
9. वर्ग सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /  
 विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र  
 की छायाप्रति सलग्न करें)
10. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....
11. (एम बी बी एस / एम डी / एम एस)
12. इटर्नशीप पूर्णता की दिनांक .....
13. एम डी / एम एस / एम डी एस उत्तीर्ण करने का दिनांक .....
13. शैक्षणिक योग्यताएं :- (प्रमाण-पत्र एवं अकसूची की सत्यापित छायाप्रति सलग्न करें)

| क  | परीक्षा का नाम     | संख्या/वर्ष<br>/ विधि | वर्ष | विषय | पास्ताक<br>/ पूर्णांक | एम बी बी एस के<br>कुल<br>पास्ताक/पश्चिमत | पयास<br>(Attempt) |
|----|--------------------|-----------------------|------|------|-----------------------|--|-------------------|
| 1  | 2                  | 3                     | 4    | 5    | 6                     | 7  |                   |
| 1. | MBBS First Prof    |                       |      |      |                       |  |                   |
| 2. | MBBS Second Prof   |                       |      |      |                       |  |                   |
| 3. | MBBS Final Part I  |                       |      |      |                       |  |                   |
| 4. | MBBS Final Part II |                       |      |      |                       |  |                   |

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के पयास (Attempt) प्रमाण पत्र अशिष्टता द्वारा प्रदत्त हो सलग्न करें।

14. सलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

स्थान

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// प्रमाण-पत्र //

में प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णत  
है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त  
या जा सकेगा। मुझ पर म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वशासी समिति म.  
गौ. स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

M.G.M. MEDICAL COLLEGE, INDORE

CHECK LIST FOR POST OF

Subject

Name of candidate

Category

Age

List of documents to be checked:

- 1- Date of Birth (High School Marksheet)
- 2- MBBS mark sheet,                      -                      Marks obtained                      Attempts  
    I Prof  
    II Prof  
    Pre-final  
    Final                      Total                      %
- 3- MBBS Degree
- 4- M.D.  
    Attempts if any
- 5- M.D. / M.S. Degree / Diploma
- 6- Extra qualifications
- 7- Post P.G. Teaching Experience
- 8- Publications in indexed journals Nos.
- 9- Caste Certificate
- 10- Domicile Certificate (M.P.)
- 11- M.B.B.S. Registration No. (State)                      (State Council)
- 12- M.D. Registration No. (State)                      (State Council)
- 13- Employer's NOC

Remark:

(Name & Signature of Scrutiny Officer)